

## \*प्रेस नोट\*

\*पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में आज दिनांक:- 07.11.2022 को जनपद मे अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-\*

- थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त सुमित उर्फ छोटू पुत्र छत्रपाल यादव निवासी मौ0 मोहम्मदी सराय थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को मय 01 तमंचा 12 बोर व 01 मिस कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना हसनपुर पुलिस द्वारा पर्चा सट्टा की खाईबाडी करने वाला अभियुक्त मुरसलीम पुत्र सलीम निवासी खंकर वाला कुंआ थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को मय एक डायरी, पैन व 360 रूपये नगद सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजरौला एंटी रोमियों पुलिस टीम द्वारा शिव मन्दिर गजरौला के पास खडे होकर आने जाने वाले महिलाओं/लडकियों पर अश्लील फब्तियां कस रहे अभियुक्त 1. अमनदीप पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी अतरपुरा जनपद अमरोहा व 2. मोहित चौधरी पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी विजयनगर थाना गजरौला जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 04 अभियुक्त 1. मुकुल पुत्र बब्बू जाटव निवासी मोहल्ला फाजलपुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा 2. विपिन पुत्र धर्मवीर निवासी मोहल्ला विजय नगर थाना गजरौला जनपद अमरोहा 3. राजीव पुत्र शीशराम निवासी फाजलपुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा व 4. चन्द्रपाल पुत्र जिला सिंह जाटव निवासी फाजलपुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा को मय 52 पत्ते ताश व 555/- रूपये नकद सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा अभियुक्त सतीश कुमार गुर्जर पुत्र स्व0 जयपाल सिंह निवासी अल्लीपुर भूढ चौपला कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा को मय 01 पिस्टल देशी 32 बोर सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना हसनपुर एंटी रोमियों पुलिस टीम द्वारा झकडी अड्डा हसनपुर पर खडे होकर आने जाने वाले महिलाओं/लडकियों पर अश्लील फब्तियां कस रहा अभियुक्त रिहान पुत्र मुन्तियाज निवासी मोहल्ला कनेटा रोड कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 23 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डिडौली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति, थाना गजरौला पुलिस द्वारा 10 व्यक्ति, थाना आदमपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति व थाना रहरा पुलिस द्वारा 07 व्यक्तियों का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।